



# POLICE COMMISSIONERATE



## GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 15.11.2021

**1-थाना सेक्टर 58 पुलिस द्वारा, मोबाइल सैचर गैंग के 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूट/चोरी के 06 मोबाइल बरामद।**

दिनांक 14.11.2021 को थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा मोबाइल सैचर गैंग के 03 अभियुक्त 1.आफताब पुत्र शमशाद, 2. सूरज पुत्र विरेन्द्र यादव, 3. अमन पुत्र निजाम को हीरो एजेन्सी के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से लूट/चोरी के 06 मोबाइल फोन भिन्न-भिन्न कम्पनी के व चोरी की 01 मोटर साइकिल स्पलेण्डर प्रो फर्जी नम्बर प्लेट बरामद हुए हैं।

### **विवरण:**

अभियुक्तों ने बताया कि बरामद मोटर साइकिल तीनों ने मिलकर अशोकनगर पार्क खिचड़ीपुर के पास दिल्ली से चुराई है, जिस पर फर्जी नंबर प्लेट डीएल 13एसएफ 8683 लगाकर चला रहे थे (जिसे ई चालान ऐप पर चेक करने पाया गया कि मोटर साइकिल का सही रजिस्ट्रेशन नंबर डीएल 7 एसबीएक्स 0997 है) जिस पर पर सवार होकर दिल्ली नोएडा के आस पास के क्षेत्र में राह चलते लोगो से मोबाइल छीन लेते थे तथा राह चलते सीधे सादे लोगो को कम दामों में बेच देते थे।

### **अभियुक्तों का विवरण:**

- 1.आफताब पुत्र शमशाद निवासी गुर्जर गेट के पास अली हसन का मकान-खोड़ा कालोनी थाना खोड़ा जिला गाजियाबाद मूलपता ए-720 डेरी फार्म के पास मयूर विहार फेस-3, थाना अशोक नगर दिल्ली
- 2.सूरज पुत्र विरेन्द्र यादव निवासी फ्लेट न0-55 पोकेट सी 2 मयूर विहार फेस-3 थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली मूल पता- ग्राम मिशलगढी थाना कविनगर गाजियाबाद
- 3.अमन पुत्र निजाम निवासी सितारा मस्जिद के सामने ग्राम घड़ौली थाना गाजीपुर दिल्ली

## पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0-907/2021 धारा 414, 482 भादवि थाना सेक्टर-58 जिला गौतमबुद्धनगर

### बरामदगी का विवरण:-

1. एक मोटर साईकिल स्पलेण्डर प्रो फर्जी नंबर प्लेट नम्बर डीएल 13एसएफ 8683 सही रजिस्ट्रेशन नंबर डीएल 7एसबीएक्स 0997।
2. लूट व चोरी के 06 मोबाइल फोन भिन्न-भिन्न कम्पनी के



**# थाना दनकौर क्षेत्रान्तर्गत रात्रि में एक्सप्रेसवे पर एक मिनी बस जिसमें महिलायें व बच्चें यात्रा कर रहे थे, सीएनजी खत्म होने के कारण सुनसान स्थान पर रूके होने की सूचना पर डॉयल 112 द्वारा मदद कर किया गया बस को रवाना।**

दिनांक 14.11.2021 को थाना दनकौर क्षेत्र के अंतर्गत समय रात्रि 23:18 बजे कॉलर द्वारा डॉयल 112 पर सूचना दी गयी कि एक मिनी बस जिसमें महिलाये व बच्चें भी है, मथुरा से दर्शन करके एक्सप्रेसवे से दिल्ली जा रहे थे जोकि एक सुनसान जगह पर अचानक सीएनजी खत्म होने के कारण गाडी खडी हो गयी है जिसमें सवार बच्चें व महिलायें सुनसान स्थान होने के कारण भयभीत है। डॉयल 112 पुलिस द्वारा कॉलर को धैर्य रखने व भयभीत न होने के लिये कहा गया तथा तत्काल कार्यवाही करते हुये डॉयल 112 की पीआरवी 1863 ने मौके पर पहुंच कर बस में मौजूद यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करते हुये क्रेन द्वारा बस को सीएनजी पम्प तक ले जाया गया तथा सीएनजी उपलब्ध करवाकर बस को सकुशल गंतव्य को रवाना किया गया। पुलिस द्वारा तत्काल मदद करने पर यात्रियों द्वारा सराहना करते हुए धन्यवाद किया गया।